

# बेकारबांध में नकली उत्पाद के गोदाम का भंडाफोड़

हिन्दुस्तान टीम, धनबाद Newswrap

Sat, 12 Mar 2022 04:01 AM



ब्यूटी प्रोडक्ट की अग्रणी कंपनियों में शुमार लैक्मे के नकली उत्पाद की बिक्री का भंडाफोड़ हुआ है। कंपनी की जांच एजेंसी ने बेकारबांध स्थित रिद्धि मार्केटिंग से भारी मात्रा में हिन्दुस्तान यूनिलीवर के नकली लैक्मे उत्पाद को जब्त किया है। इसमें एली आई ड्रामा और फेयर एंड लवली क्रीम भी जब्त की गई है। यह कार्रवाई हिन्दुस्तान यूनिलीवर कंपनी द्वारा नियुक्त जांच एजेंसी (स्टीव पावर डिटेक्टिव सर्विस) की है।

ग्राहक बनकर उत्पाद लेने पहुंची जांच एजेंसी कार्रवाई से पूर्व कंपनी द्वारा नियुक्त जांच एजेंसी की नयनतारा डेमी और उनकी टीम ब्यूटी उत्पाद लेने के लिए बेकारबांध स्थित रिद्धि मार्केटिंग में पहुंची। यहां से प्रोडक्ट खरीदने के बाद इसकी गहनता से जांच की गई, जिसमें खरीदे के सभी उत्पाद नकली पाए गए। इसके बाद धनबाद थाना की पुलिस के सहयोग से जांच एजेंसी की अगुवाई में शुक्रवार की शाम पौने चार बजे रिद्धि मार्केटिंग के गोदाम में छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में हिन्दुस्तान यूनिलीवर के नकली लैक्मे प्रोडक्ट को जब्त कर लिया गया।

दो लाख रुपए की संपत्ति की गई जब्त बेकारबांध स्थित रिद्धि मार्केटिंग से लैक्मे के लगभग दो लाख रुपए के नकली प्रोडक्ट को जब्त किया गया है। जब्त ब्यूटी प्रोडक्ट में लैक्मे का नकली सीसी क्रिम, एचडी प्राइमर, परफेक्ट रेसिडेंस फाउंडेशन, मैटिक लिपिस्टिक, वाटर प्रूफ आइलाइनर, मशकरा, लैक्मे आइकोनिक काजल, एलीआई ड्रामा जैसे कुल 21 उत्पाद बरामद किए गए। मामले में जांच एजेंसी (स्टीव पावर डिटेक्टिव सर्विस) की नयनतारा डेमी की शिकायत पर धनबाद थाना में रिद्धि मार्केटिंग के प्रोपराइटर मनीष गुप्ता के विरुद्ध कॉपीराइट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Source: <https://www.livehindustan.com/jharkhand/dhanbad/story-fake-product-warehouse-busted-in-berakdam-6010013.html>